CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED



CIN L51909DL1984PLC019441

REGD. OFFICE: 1ST FLOOR, 14, RANI JHANSI ROAD, NEW DELHI-110055 PH.: +91-11-23516567 FAX: +91-11-23553698 CORPORATE OFFICE SUITE 522, 5TH FLOOR GALLERIA TOWERS, DLF PHASE-IV, GURUGRAM-122009 (HR)

Ph.: +91-124-44754936, E-mail: info@cpil.com Website: www.cpil.com

To, Listing Department Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Date: 18/08/2021

BSE Scrip Code No.: 530309

Sub: Submission of Newspaper Clipping for information regarding 36th Annual General Meeting of the Company to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in Compliance with General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 [read with Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and 02/2021 dated 13th January, 2021] ('MCA Circulars') and also the Circular dated 12th May, 2020 and 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), please find enclosed herewith Newspaper Clipping for giving public notice to the members for intimating that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 21st September, 2021 at 12:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means published in the "THE FINANCIAL EXPRESS" (English Edition) and "HARIBHOOMI" (Hindi Edition) Newspaper dated 18th August, 2021.

The above information is also available on the website of the Company at www.cpil.com.

This is for your information and records. Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

For CHANDRA'RRABHU INTERNATIONAL LIMITED

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl.: as above

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2021

(Rupees in thousands except per share data

20

Particulars		Quarter Ended June 30 2020 (Audited)	Quarter Ended June 30 2020 (Audited)	
1	Total Income from Operations	6,721,720.00	23,398,959.00	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-504,552.00	274,056.00	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-504,552.00	274,056.00	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-504,552.00	274,056.00	
5	Total Comphrehensive Income for the period Comprising Profit/Lossfor the period (after tax) and Other Comprehensive Income after Tax	-504,552.00	274,056.00	
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Re.1)	36,02,92,000	36,02,92,000	
7	Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in Audited Balance Sheet of previous year		947 = 30A	
8	Earnings per Share (Basic & Diluted)	0	0	

1. The Results have been reviewed by Audit Committee in the meeting held on August 13, 2021 and approved at the meeting of the board of Directors held on August 13, 2021

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosues Requirements) Regulations, 2015, for the Quarter ended June 30, 2021. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of Stook exchange(s) (www.bseindia.com) and Company's website. For MFL India Limited

Anil Thukral Place : Delhi (Director) Date: 14.08.2021 DIN: 01168540



THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah

Zafar Marg, New Delhi - 110002 Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943 Phones: 011-47636300, Fax: 011-23313458

Email: nationalheralddelhi@gmail.com, Website: www.nationalheraldindia.com NOTICE is hereby given that the 83rd Annual General Meeting (AGM) of the Company

will be held on Friday, September 10, 2021 at 10.30 am (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with General Circular Number 20/2020, dated May 5, 2020 read with circular numbers 14/2020 dated April 8, 2020 17/2020 dated April 13, 2020, and 02/2021 dated January 13, 2021 (Applicable Circulars) issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) to transact the business that will be set forth on the Notice of the Meeting

The Company has completed dispatch of the Annual Report for financial year 2020-21 along with notice of AGM to Members whose e-mail address are registered with the Company or with their depository participants. The dispatch of notice of AGM and Annual Report 2020-21 through e-mail has been completed on Tuesday, August 17, 2021.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system provided by Insta vote e-voting system of Link Intime India Private Limited (LIIPL) from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') and e-voting on the day of AGM and the business may be transacted through voting by electronic means. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up share capital of the Company as on Friday, September 3, 2021, ('cut-off date'). The facility for e-voting shall also be made available at the AGM. The Members who

have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. A person whose name is recorded in the register of members or register of beneficial owners maintained by depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. Notice of AGM will also be placed over the website of Company at http://nationalheraldindia.com /corporate-governance/agm and of LIIPL at http://instavote.linkintime.co.in. A person who has acquired shares and become a Member of the Company after the

dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at instavote@linkintime.co.in or calling on 022-49186000. However, if the person is already registered with insta vote for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. The remote e-voting period commences on Monday, September 6, 2021 at 9.00 am (IST)

and ends on Thursday, September 9, 2021 at 5.00 pm (IST). During this period, Shareholders of the Company holding may cast their vote through remote e-voting. The remote e-voting facility shall not be allowed beyond September 9, 2021 at 5.00 pm (IST). For details relating to remote e-voting and e-voting at AGM, please refer to the Notice of the AGM. In case of any grievances connected with e-voting, please refer the Frequently Asked

Questions (FAQs) and Insta vote e-voting manual available at https:// instavote.linkintime.co.in, under Help section or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, LIIPL or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call at Tel: 022 - 49186000 Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the AGM

For The Associated Journals Limited

Pawan Kumar Bansal Place: New Delhi Chairman and Managing Director Date: 17.08.2021 DIN: 09015697

CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED CIN: L51909DL1984PLC019441

Regd. Office: 14, Rani Jhansi Road New Delhi-110055 Corporate office: 522, Fifth Floor, DLF Galleria Commercial Complex, DLF City Phase IV, Gurugram, Haryana-122009 Email: info@cpil.com, cs@cpil.com, Website: www.cpil.com

PUBLIC NOTICE -36TH ANNUAL GENERAL MEETING (Pursuant to MCA General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 & Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021)

This is to inform you that in view of the worldwide outbreak of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs has issued General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 [read with Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and 02 2021 dated 13th January, 2021] ('MCA Circulars') and also the Circular dated 12th May, 2020 & 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") permitting the companies for holding of Annual General Meetings through Video Conferencing

("VC") facility/other audio visual means ("OAVM"). In the present scenario and in due compliance with the provisions of the Companies Act 2013("the Act"), aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular the forthcoming 36th Annual General Meeting ('AGM') of M/s Chandra Prabhu International Limited ("the Company") will be convened through Video Conferencing ("VC") facility/other audio visual means ("OAVM"). The 36th AGM of the Members of the Company will be held on Tuesday, 21st September 2021 at 12:00 P.M.(IST) through Video Conferencing ("VC") facility/other audio visual means ("OAVM")

provided by the National Securities Depositories Limited ("NSDL") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. Additionally, the Notice of AGM along with Integrated Annual Report of the Company for the

Financial Year 2020-21 will be available on the website of the Company at www.cpil.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com.

The Company has entered into agreement with National Securities Depositories Limited (NSDL)

authorized e-voting agency, for facilitating voting through electronic means ('remote e-voting') to enable the members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM as well as for the members who are present at the AGM VC facility/OAVM and wish to cast their vote during AGM, through e-voting system ("e-voting"). The manner of "remote e voting" and "e-voting" during the AGM for members holding share in physical mode dematerialization mode and for members who have not registered their email address will be provided in detail in the Notice of the AGM. In case you have any queries or issue regarding remote e-voting /e-voting, you may contact at evoting@nsdl.co.in or call at 1800-1020-990

Members can attend and Participate in the AGM through the VC facility/OAVM only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly, please note that no provisions has been made to attend and participate in the 36th AGM of the Company in person to ensure the compliances with the directives issued by the government authorities with respect to COVID-19. Members attending the meeting through VC facility/OAVM shall be counted for the purpose of the reckoning the Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2020-21 will be sent electronically

only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (RTA)/ Depositories. As per the MCA Circular and SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report will be sent to any Member. Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Integrated Annual Report electronically and to receive Login credentials: I. For Members who hold shares in Electronic Form and email address not registered:

Members who hold shares in Electronic Form and have not updated their email address are requested to update their e-mail address by writing to the Company's RTA i.e M/s Alankit Assignments Limited at rta@alankit.com. Members are requested to provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card). AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) / can also contact to their Depository Participant(s). For Members who hold shares in Physical Form: Members who hold shares in Physical

Form and have not updated their email address are requested to update their e-mail address by writing to the Company's RTA i.e M/s Alankit Assignments Limited at rta@alankit.com. Members are requested to provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card)

For Permanent registration of their e-mail address. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant ("DPs") and to Registrar in case the Members are holding shares in physical Form.

Shareholders may note that the Board of Directors at their meeting held on 25th June, 2021

has recommended a Final Dividend of Rs. 1.00 per equity share. The Final dividend will be paid subject to approval of the Members through electronic transfer modes to the Shareholders who have updated their bank account details. For Shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to the registered addresses depending on availability of postal services. Manner of registration of receiving Dividend electronically: Members are advised to opt for

receipt of dividend through electronic transfer to avoid delay in receiving the dividend. Accordingly, the shareholders are requested to update their complete bank details with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the RTA (where the shares are held in physical mode) at rta@alankit.com along with the copy of request letter mentioning the name folio number, bank details, self attested copy of PAN, any address proof and cancelled cheque

in Compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI Any member in case of any query concerning participation in the Annual General Meeting or

This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company

payment of dividend may write to the company at cs@cpil.com. By order of the Board

r.in

Place: Gurugram

Date: 17.08.2021

Sd/-(GAJRAJ JAIN)

CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED

CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

BMB MUSIC AND MAGNETICS LIMITED

Registered Office: 20 IInd FLOOR, NANDPURI EXTENSION, SWEJ FARM

NEW SANGANER ROAD, SODALA JAIPUR 302019 CIN No.- L18101RJ1991PLC014466 | Email - kcbokdia.kcb@gmail.com

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 30th JUNE, 2021

 Particulars Quarter Ended For the year ended 31.03.2021 31.03.2020 Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Unaudited) Income from Operations Revenue from Operations 1,389.63 Other Income Total Revenue 1,389.63 Expenses Cost of materials consumed 5.00 28.26 4,112.38 Changes in inventories of finished goods & Stock-in-(2,211.54)Progress 120.00 5.00 195.00 618.00 10.00 Employee benefits expense 1.17 0.34 6.23 10.39 Finance cost Depreciation and amortisation expense (293.53)13.41 436.88 85.62 70.50 354.34 811.55 Other Expenses 91.18 80.84 597.24 3,777.66 Total Expenses 101.18 (86.75)(80.84) (597.24)Profit/(Loss) before exceptional items & tax (1-2) (101.18)86.75 2,388.03) Exceptional Items Profit/(Loss) before tax (3-4) (101.18)86.75 (80.84)(597.24)(2.388.03)Tax expense Current tax Deferred tax Tax Adjustment Of Earlier Years (2.388.03)

. The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind As) notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) w.e.f 1st Apri 2017. 2. The statements included the results for the Quarter ended 31st March 2021 & 30th June 2020, being the Balancing Figure between. Audited in respect of full financial year and the unaudited published figures upto the end of 1st Quarter of the relevan inancial year respectively. 3. The Company's activities constitute a single business segment. 4. The figures of the previous period. year have been regrouped / recast wherever considered necessary. 5. The Above audited Financial results have been reviewed and

Date: 17.08.2021 (Director)

DEMAND NOTICE



Rajinder Nagar Ghaziabad Branch, 84, Prime plaza, Rajinder Nagar, Sector- 5, Sahibabad, Ghaziabad- 201005. Ph. No.:- 0120-2632121

POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Baroda under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice was issued on the dates below mentioned against each account and stated hereinafter calling upon the to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

nterest Enforcement Rules, 2002 on this the below mentioned date against each account. The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount and unapplied interest cost and expenses together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section 4 of section 13 of Act read with rule 8 of the Security

The borrower's attention is invited to provisions of sub – section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTIES

Sr. No.	The state of the s			Amount Outstanding (in Rs.)	
1	Mrs. Meeta W/o Mr. Jasveer	All that part and parcel of the property of Mrs. Meeta W/o Mr.	06-04-2021	Rs. 21,98,303.79 upto 05.04.2021 including interest and further interest and other expenses thereon till date of payment.	
	Singh Som & Mr. Jasveer Singh Som S/o Mr. Meghraj Singh and Guarantor Mr. Amit S/o Mr. Satyaveer Singh	Jasveer Singh Som situated at Flat No- B Ground Floor (without roof rights), plot No. KC-73, Kavi Nagar, THA, Ghaziabad admeasuring 100 Sq Mtrs (83.61 Sq yards) registered with Sub Registrar I, Ghaziabad, Bounded as: East - Plot No. 75 & 30 ft wide road, West - Plot No. 72, North - 30 ft wide road, South - Plot No. 41 & 42			
5.50	Mr. Ravi Shanker Agarwal	All that part and parcel of the property of Mr. Ravi Shanker	06-04-2021	Rs. 9,72,000.32 upto	
	S/o Late Mr. Mukesh Kumar Agarwal, Mr. Rajat Agarwal S/o Late Mr. Mukesh Kumar Agarwal & Mrs. Alka Agarwal W/o Mr. Ravi Shanker Agarwal, Guarantor Mr. Vinay Kumar S/o Mr. Ashok Kumar	S/o Late Mr. Mukesh Kumar Agarwal situated at Industrial Property Bearing No. 210/49, Plot No. 48 (Out of Khasra No. 21 min, Village Sahibabad), Rajinder Nagar, Industrial Area, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad admeasuring 11.145 Sq Mtrs (13.33 Sq Yards) registered with Sub Registrar I,	13-08-2021	05.04.2021 including interest and further interest and other expenses thereon till date of payment.	
3	Mrs. Taruna W/o Mr. Manish		06-04-2021	Rs. 10, 30,364.32 upto	
	Kumar & Mr. Manish Kumar S/o Mr. Karan Singh	at Entire First Floor (without prof sights) at Diet No. 5/000, Contact		05.04.2021 including interest and furthe interest and othe expenses thereon til	

Ghaziabad, Bounded as: East - Plot No. 5/599, West - Plot No. 5/601,

011-23227514

ALLAHABAD

R.O. No. 43/DPI/S/2021-22

North - 6 Mtr wide road, South - Plot No. 5/603

Date: 13-08-2021, Place: Indirapuram, Ghaziabad

Authorized Officer, Bank of Baroda

date of payment.

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

NOTICE Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost / misplaced and the holder(s) / purchaser(s) of the said

Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company

will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation. Distinctive Nos Certificate Nos Folio Name of

No	Shareholder	Shares	From	To	From	To
0045857	Hiren R.Vyas	266	272168	272433	1444	1444
Dated: 10	0th August 2021				(Hiren	R. Vyas)

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

OFFICE OF THE DY. COMMISSIONER. REMUNERATIVE PROJECT CELL DEPARTMENT. Dr. Shyama Prasad Mukherjee Civic Centre (25th Floor), Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi-110002 E-TENDER FOR ALLOTMENT OF AUTHORIZED PARKING SITES ON

MONTHLY LICENSE FEE BASIS.

PRESS NOTICE E-TENDER

E-Bids are invited on behalf of Commissioner, SDMC from eligible bidders for allotment of authorized surface parking sites under the jurisdiction of SDMC on monthly license fee basis in two bid system (Technical and Financial) for a period of three years and extendable further up to two more years subject of satisfactory performance of the firm and as decided by the Competent Authority. 1. Tender NIT No.200 dt. 17.08.2021, 2. Prebid Meeting :- dt.25.08.2021 at 3 PM Conference Hall at 6th Floor, Civid Centre, 3. Last date of Submission of E-Tender: 07.09.2021 upto 3.00 PM, 4. Opening date of Technical Bid: dt. 08.09.2021 at 3.30 PM, at R.P. Cell/SDMC Dept. 25th Floor, Civic Centre. (For details visit SDMCs website: www.mcdonline.nic.in and etenders.gov.in Contact number-

> **Administrative Officer** R.P. Cell/SDMC

> > Date of

Demand

Notice

05.03.2021

Date of

17.08.2021

Outstanding

Amount

Rs. 25,15,740.00

as on 05.03.2021

+ interest and

other expenses

+ charges

Authorised Officer

IDFC FIRST

Bank

CIN: L1711RJ1987PLC004067

EXTRACT OF STANDALONE RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021 (Amount in Rupees

For the For the For the For the Year guarter ended guarter ended guarter ended Eneded 31.03.2021 31.03.2021 30.06.2021 30.06.2020 **Particulars** Un-Audited/ Un-Audited/ Un-Audited/ Audited Reviewed Reviewed Reviewed 0.000 0.000 0.000 0.005 Total income Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. (5.987)(3.129)(4.551)(11.813) Exceptional and/or Extraordinary items#) s Net Profit / (Loss) for the period before tax (after (5.987)(3.129)(4.551)61.929 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (5.987)(3.129)(4.551)47.497 (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) (3.129)(5.987)(4.551)47.497 and Other Comprehensive Income (after tax)] 6 Equity Share Capital 3560700 3560700 3560700 3560700 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown -342.64 -394.70 -342.64-342.64in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) of Rs. 10/-(0.168)(0.088)(0.128)1.334 1.334 2. - Diluted (0.168)(0.088)(0.128)

Note: a) Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange(s) http://www.bseindia.com/corporates/Comp

Resultsnew.aspx?expandable=3 and the company www.rishabspecial.com. # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS

For RISHAB SPECIAL YARNS LIMITED

Place: Jaipur

Name of the Borrower/Mortgagor/

through its proprietor:

(Guarantor).

Pradesh -201301 (Borrower)

Pradesh -201301 (Guarantor cum Mortgagor).

DIN: 00349697

Amount Due from the



IMPAIRED ASSETS PORTFOLIO MANAGEMENT DEPARTMENT

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [See rule 8(1)] Whereas the predecessor of undersigned being the Authorised Officer of Jammu & Kashmir Bank Ltd under the Securitization and

Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices to the following borrower/s to repay the amount mentioned in the notices within sixty days from the date of receipt of said notices along with the interest thereon and the borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on 16.08.2021. The borrower/s in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property/ies and any dealings

with the property/ies will be subject to the charge of THE JAMMU & KASHMIR BANK LTD (BU: Mayur Vihar) for the amounts and interest thereon due from the borrower/s as mentioned herein below:

The borrower/s attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Account number, Date

Date - 28.04.2021

Amount-

Thirty eight Lacs two

Thousand seven hundred

ten and Paisa ninety eight

Only)

Account No. -

0463260540000003

Date - 28.04.2021

Amount- Rs.2,05,389

(Rupees Two Lac five

Thousand three hundred

eighty nine Only)

No	Guarantors	Property/ies	Notice Notice	31.07.2021
1.	M/S Shree Krishna Packaging, 287 Sant Nagar, East of Kailash New Delhi 110065 now at Ground Floor of Industrial Built-up Plot E-160 Sector 63 Noida U.P 201301; through its proprietor: Mr. Vinay Kumar Narang S/o Mr. Chander Mauli Narang R/o Tower no I, Flat no 1005, 10th Floor, Grand Ajnara Heritage, Sector-74 Noida, Uttar Pradesh-201301 (Borrower cum Mortgagor). Mrs. Minakshi Narang W/o Mr. Vinay Kumar Narang R/o Tower no I, Flat no 1005, 10th Floor, Grand Ajnara Heritage, Sector-74 Noida, Uttar Pradesh-201301 (Guarantor).	immovable property bearing no. I – 1005, on tenth Floor in Tower-I, constructed at plot no GH-01/B, sector 74, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar U.P. having Super Area 1815 Sq. Ft to g e t h e r w i t h proportionate undivided	0463268000000008 Date – 28.04.2021 Amount- Rs.55,88,734.11 (Rupees Fifty Five Lacs Eighty Eight Thousand seven hundred thirty four and Paisa eleven Only)	Amount Due- Rs. 57,74,376.11 (Rupees Fifty seven lacs seventy four thousand three hundred seventy six and Paisa eleven Only) as on 31.07.2021 along with further costs, interest and expenses etc.
2.	1. M/S Shree Krishna Packaging, 287 Sant Nagar, East of Kailash New Delhi 110065 now at Ground Floor of Industrial Built-up Plot E-160 Sector 63 Noida U.P 201301; through its proprietor: 2. Mr. Vinay Kumar Narang S/o Mr. Chander Mauli Narang R/o Tower no I, Flat no 1005, 10th Floor, Grand Ajnara Heritage, Sector-74 Noida, Uttar Pradesh -201301 (Borrower cum Mortgagor). 3. Mrs. Minakshi Narang W/o Mr. Vinay Kumar Narang R/o Tower no I, Flat no 1005, 10th Floor, Grand Ajnara Heritage, Sector-74 Noida, Uttar Pradesh -201301 (Guarantor). 4. Mr. Manesh Khanna S/o Mr. Yash Pal Khanna R/o C-63, sector 49, Noida Uttar Pradesh - 201301 (Guarantor).	Equitable Mortgage of immovable property bearing no. I – 1005, on tenth Floor in Tower-I, constructed at plot no GH-01/B, sector 74, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar U.P. having Super Area 1815 Sq. Ft t o g e t h e r w i t h proportionate undivided impartible interest in	0463020100000036 Date – 28.04.2021 Amount- Rs.26,61,784.71 (Rupees Twenty six Lacs Sixty one Thousand seven hundred eighty four and Paisa Seventy one Only)	Amount Due- Rs. 27,23,788.71 (Rupees twenty seven lacs twenty three thousand seven hundred eighty eight and paisa seventy one Only) as on 31.07.2021 along with further cost, interest and expenses etc.
3.	 M/S Raasa, D-335A, 2nd Floor, DLF Mall of India, Sector 18, Noida, Uttar Pradesh-201304; 			Amount Due- Rs. 39,44,723.98 (Rupees

immovable property

GH-01/B, sector 74.

mpartible interest in

land on sub-lease basis.

Narang R/o Tower no I, Flat no 1005, 10th Floor, tenth Floor in Tower-I, Rs.38,02,710.98 (Rupees

Mrs. Minakshi Narang W/o Mr. Vinay Kumar bearing no. 1 – 1005, on

Grand Ajnara Heritage, Sector-74 Noida, Uttar constructed at plot no

3.Mr. Vinay Kumar Narang S/o Mr. Chander Mauli Noida, Distt. Gautam

Narang R/o Tower no I, Flat no 1005, 10th Floor, Budh Nagar U.P. having

Grand Ajnara Heritage, Sector-74 Noida, Uttar Super Area 1815 Sq. Ft.

4. Mr. Manesh Khanna S/o Mr. Yash Pal Khanna together with

R/o C-63, sector 49, Noida Uttar Pradesh-201301 proportionate undivided

Loan 39,44,723.98 (Rupees thirty nine lacs Forty Four thousand seven hundred twenty three and paisa ninety eight Only) as on 31.07.2021 along with further cost, interest and expenses etc. Amount Due- Rs. 2.12.343 (Rupees Two lac twelve thousand three nundred forty three Only as on 31.07.2021 along with further cost, interest and expenses etc. Authorised Officer, Jammu & Kashmir Bank

इंडियन बेंक Indian Bank

∆इलाहाबाद

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Cantt Branch, Meerut (Erstwhile Allahabad Bank, Meerut Cantt)

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement(Security) nterest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) and 13(12) read with Rules 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer issued a Demand Notice on the dates noted against each Account as mentioned hereinafter, calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said Notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the under noted borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sec 13(4) of the said Act read with Rules 8 & 9 of the said Rules on the dates

the property/ies and any dealing ad Bank) for the amounts and

mentioned against each Account. The borrower in particular and the public in general with the property/ies will be subject to the charge interests thereon mentioned against each account h	of Indian Bank (erstwhile Allahaba
Borrower / Guarantor Name & Address	Description of the Property
Borrower: (i) Smt. Malvika Sharma W/o Shri Lalit Sharma, Address (i)-49, Jagannath Puri, Shivaji Road, Meerut. Address (ii)-XGF-003, GF, ansal Town, Phase-3, Meerut (ii) Shri Lalit Mohan Sharma S/o Shri M.M. Kaushik, Address (i)-49, Jagannath Puri, Shivaji Road, Meerut. Address (ii)-XGF-003, GF, ansal Town, Phase-3, Meerut. (iii)Shri Manoj Kumar Arora C/o Punjab Shoes, Abulane,	(First Floor), Sector Efa-02, Area 86.67 Square Meters situated a Greater Noida, Uttar Pradesh Boundaries: North-West: Fla No. 102, South-West:Open Below, North-East: Open Below
Date - 17.08.2021 P	lace - MEERUT

IDI O FIISL DAIIK LIIIIILGU

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792 Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.

Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Ltd) The loans of the

below-mentioned borrowers and co- borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Ltd) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates. Outstanding Loan

No.	Account No.	Loan	borrowers and co-borrowers	13 (2) Notice Date	amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	26035616	HOME LOAN	1. MAYA HARJI 2. HARI LAL	07-08-2021	853674.83/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF HOUSE NO. 3/64, BLOCK NO.01, NEB-85, MEASURING 27.00 SQ.MTS. SITUATED IN VILLAGE DAUDPUR, ALWAR, RAJASTHAN AND, BOUNDED AS:EAST:HOUSE NO. 3/63 WEST: HOUSE NO. 3/65 NORTH: COMMUNITY COURT YARD SOUTH: ROAD

You are hereby called upon to pay the amounts to IIDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Ltd) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Ltd). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease of

Date: 18.08.2021 Place: ALWAR

Authorized Officer IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited

and presently known as IDFC First Bank Limited)

IDFC FIRST

IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

CIN: L65110TN2014PLC097792 Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031. Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial

Name of

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Ltd) The loans of the

Section

below-mentioned borrowers and co- borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Ltd) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates. Outstanding

No.	Account No.	Loan	co-borrowers	13 (2) Notice Date	per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	13519789 & 34195013	LOAN AGAINST PROPERTY	1. PAPPU BHERONATH 2. MURTI DEVI	07-08-2021	13,16,167.04/-	PLOT COMPRISED IN KHASRA NO. 52//16/2, SITUATED IN DARRANKHURD JHANSA ROAD, WARD NO. 5, GALI NO. 1, SITUATED AT KIRTI NAGAR, INSIDE M.C. LIMITS, THANESAR, TEHSIL THANESAR, TOTALLY, MEASURING 22' X 63' // 154 SQ. YARDS (APPROXIMATELY) WITHIN THE LIMITS OF KURUKSHETRA AND BOUNDED AS: EAST: HOUSE OF PRAKASH (63'00") NORTH: STREET (22'00") WEST: STREET (63'00") SOUTH: HOUSE OF GOPI (22'00")

IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Ltd) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication. failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Ltd). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise. Authorized Officer

Date: 18.08.2021 Place: KURUKSHETRA

IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

New Delhi

DIN- 00049199 Place: Noida, Date: 16.08.2021

86.75 Profit/(Loss) for the period (5-6) (101.18)(80.84)(597.24) 8 Other Comprehensive Income Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)

Rs. 10/- each) 11 Earning per share Basic (0.02)0.01 (0.01)(0.39)Diluted (0.02)0.01 (0.01)

(101.18)

6.059.70

6,059.70

Income tax relating to items that will not be reclassified

Total Other Comprehensive Income for the period

approved by the Board of Directors at their respective Board meeting held on

Sixty Four Only)

to profit or loss (Net of Tax)

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s

Total Comprehensive Income (7+8)

10 Paid up equity share capital (face value of

For BMB MUSIC AND MAGNETICS LIMITED Place: Jaipur

EBIXCASH WORLD MONEY INDIA LTD Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Registered Office: Manek Plaza, 8th Floor, Kolekalyan, Kalina CST Road. Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Santacruz, Mumbai, Maharashtra - 400 098

(597.24)

6.059.70

(2,388.03

(80.84)

6.059.70

Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as or date of Demand Notice i.e. 11-Aug-2021 and security offered towards repayment of loan amount are as under:-Demand Notice Date and Amount | Description of secured asset (immovable property) 11-August-2021 All that piece and parcel of the property being Mr. Mukesh Yadav,
Mrs. Supyari Devi
Eleven Lakh Eleven
(Prospect No 885473)

Rs. 11,11,664/- (Rupees Flat No- C-404, admeasuring 442 Sq.ft, 4th Floor, Tower-C, Rudrakesh, Village-Shreekishanpura, Sangaenr, Jaipur, 302017,

Rajasthan, India

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act. and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the orrowers For, further details please contact to Authorised Officer at **Branch Office:** Ambition Tower, Plot No. D-46-B Offices No. 307 To 312, Malan Ka Chauraha, Agrasen Circle, Subhash Marg,C-Scheme, Jaipur - 302001 and/or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited Date: 18-August-2021 Place: Jaipur

RISHAB SPECIAL YARNS LIMITED Regd. Office: 2070, Rasta Bara Gangore, Jaipur-302003 Email: rsyltd@gmail.com Phone & Fax No.: 0141-2575213, CIN: L1711RJ1987PLC004067 Visit us at : www.rishabspecial.com

Rules, whichever is applicable Date: 14.08.2021 Amitabh Hirawat, Managing Director

THE JAMMU & KASHMIR BANK LIMITED

GSTIN: 06AAACT6167G1ZB
T+91 (0)0124-4715800 F+91 (0)0124-4715800 E: iapmd.del@jkbmail.com W: www.jkbank.net

खबर संक्षेप

एक अक्टूबर तक पहली कटऑफ जारी करेगा डीय नर्ड दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए एक अक्टूबर तक अपनी पहली कटऑफ सूची जारी कर सकता है। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि तब तक सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा. वैकल्पिक परीक्षा और सधार के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे तथा नीट, जेईई परीक्षाएं भी तब तक खत्म हो जाएंगी। प्रोफेसर पिंकी शर्मा, डीन, दाखिला ने कहा कि हम एक अक्टूबर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दो और तीन अक्टूबर को अवकाश होने के कारण हम दाखिले की प्रक्रिया चार अक्टूबर से शुरू करेंगे। कटऑफ एक अक्टूबर को जारी की जा

बेरोजगारी का आंकडा सबसे ज्यादा : भारद्वाज

शर्मा ने कहा कि उन्हें मंजरी लेनी

सकती है। इससे पहले

विश्वविद्यालय ने आठ से 10 सितंबर के बीच पहली कटऑफ जारी करने की योजना बनायी थी।

होगी और आईटी टीम से भी

परामर्श लेना होगा।

नर्ड दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता व पर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा है कि सब्सिडी कभी भी सशक्त रोजगार का विकल्प नहीं बन सकता। लेकिन केंद्र व दिल्ली सरकार के राज में बेरोजगारी का आंकडा अब तक सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में केजरीवाल ने एक भी मॉडल केरियर सेंटर और जॉब ओरिएंटेड कॉलेज नहीं खोले हैं। भारद्वाज मंगलवार को प्रेसवार्ता में बोल रहे थे इस मौके पर दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन और यवा कांग्रेस अध्यक्ष रणविजय सिंह लोचव भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र व केजरीवाल सरकार पर बेरोजगारी को लेकर जमकर हमला बोलो। भारद्वाज ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले 6 वर्षों में अगस्त 2020 तक सिर्फ 440 लोगों को रोजगार दिया है। जबकि रोजगार देने वाले विभाग में ही 84 प्रतिशत पद खाली पडे है। उन्होंने कहा कि खोखली केजरीवाल सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल पर 49 लाख जॉब होने का दावा करते हुए 51 हजार 243 कम्पनियों

स्कूल में 'अटल हॉल' का किया उदघाटन

को रजिस्टर किया।

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल और स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने मंगलवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय नद विहार में नवनिर्मित 'अटल हॉल' का उदघाटन किया। इस अवसर पर नेता सदन सत्यपाल सिंह, वार्ड समिति अध्यक्ष प्रवेश शर्मा, वरिष्ठ पार्षदगण व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यहां महापौर अग्रवाल ने कहा कि निगम विद्यालय में 'अटल हॉल' का होना निगम छात्रों के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि जब-जब इस हॉल में कार्यक्रम आयोजित होंगे, हम स्वभाविक तौर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे।

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली दक्षिणी पूर्वी जिले की ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने बिना ब्याज के लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले दो जालसाजों को गिरफ्तार किया हैं। दोनों आरोपी पेशे से टेलर हैं लेकिन साइड में ठगी के लिए बाकायदा कॉल सेंटर भी चला रहे थे। इनके पास से छह मोबाइल फोन और





ग्राहकों के डिटेल्स वाले कई गिरफ्तार किये गये दोनों लोगों के रजिस्टर पुलिस ने जब्त किये हैं। नाम मोहम्मद अनीश और अब्दुल

ब्याज फ्री लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले दो अरेस्ट पलिस ने आरोपियों का पराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने की बात कहीं है। डीसीपी आरपी मीणा के अनुसार 21 जून को लोकेश नामक शख्स ने सर्वा दो लाख रुपए ठगे जाने की शिकायत दी थी। ठगों ने उन्हें एलआईसी से बिना ब्याज के 30 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा दिया था। शुरू में उनसे लोन के बदले 10 प्रतिशत रकम

थी। पीडित गोविंदपरी मेटो स्टेशन में बतौर कंट्रोलर कार्यरत है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु की। जालसाजों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया।

उनके फोन की कॉल डिटेल विश्लेषण किया गया। आखिरकार, उनकी लोकेशन ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में पाई गई। अकाउंट मोहम्मद अनीश के नाम

आरोपी मोहम्मद जब्बार जामिया नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले छह मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दोनों रिश्तेदार हैं। खड्डा कॉलोनी में लोगों से ठगी करने के लिए फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं। दोनों डाटा

वेंडर से कस्टरमर का डाटा खरीदते

निजी जानकारी और पैन कार्ड नंबर

इसके बाद वह लोगों को कॉल कर उन्हें बिना ब्याज के लोन दिलाने का लालच देते थे। सर्विस चार्ज के तौर पर 10 प्रतिशत एडवांस वसूल करते थे। आरोपी मोहम्मद अनीश चौथी और अब्दुल जब्बार 12वीं कक्षा तक पढ़ा

कहासुनी के दौरान दिया था वारदात को अंजाम

वाले दो चचेरे आई गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ ने गत चार अगस्त को जन्मदिन पार्टी में युवक की चाकु घोंपकर हत्या करने की गुत्थी को सलझा लिया है। पलिस ने इस मामले में दो चचेरे भाईयों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में विवेक झा (24) और उसका चचेरा भाई गोविंद झा (24) है। आरोपी सलमान नगर. किराड़ी में रहते है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी विवेक झा ने वर्ष 2016 में अपने शिक्षक की हत्या की थी।

शिक्षक ने विवेक को मामूली गलती पर डांट लगाई थी। आरोपी हत्या मामले में जेल में बंद था और फिलहाल पैरोल पर बाहर आया था। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी (द्वारका) संतोष कुमार मीणा ने बताया कि गत चार अगस्त को पुलिस को सुचना मिली कि जन्मदिन के दौरान दो युवकों ने एक युवक को चाकू मार दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।



आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद

2016 में शिक्षक को उतारा था मौत के घाट

पुछताछ के दौरान आरोपी विवेक ने पुलिस को बताया कि स्कूल में शिक्षक के डाटने पर उसने अपने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर वर्ष 2016 में उसकी चाकू घोंपकर हत्या की थी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। इस संबंध में नांगलाई थाने में मामला दर्ज हुआ था।

पुलिस उसे लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीच-बचाव कराने के दौरान आरोपियों लूटपाट का विरोध करने पर ऑटो चालक को मारा चाक्

नई दिल्ली। करोल बाग थाना इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक ऑटो चालक को चाकू मार दिया। बदमाशों का कहर यही नहीं रुका उन्होंने पीड़ित पर डंडे से भी हमला किया। इसके बाद वह पीड़ित के साथ लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। घायल विनय कुमार मेहतो को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने विनय कुमार महतो की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पितस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फटेज खंगाल कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, विनय कुमार महतो, हौजकाजी इलाके में संपरिवार रहते हैं। देर रात करीब एक बजे वह तांगा स्टैंड. आर्य समाज रोड पर ऑटो लेकर खडे थे। इस दौरान तीन यवक वहां आए और वह करोल बाग मेटो स्टेशन जाने की बात कहने लगे। इस पर विनय उनके साथ जाने लगा। जैसे ही वह रास्ते में सुनसान जगह पर पहुंचे, तभी पीछे से एक युवक ने उनकी गर्दन पकड़ ली और दूसरे ने उनका मंह बंद कर दिया। तीसरे ने उनकी तलाशी लेते हुए जेब से 1500 रुपए निकाल लिए। विरोध करने पर एक ने चाकू मार जख्मी कर दिया। उन्हें ऑटो में रखे डंडे से भी मारा गया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। घायल ऑटो ड्राइवर ने अपने रिश्तेदार हीरालाल को फोन कर मामले की सूचना दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

ने एक युवक को चाकू भी मार दिया था। पुलिस ने हत्या व हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शरू कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी विवेक अपने चचेरे भाई गोविंद झा के साथ एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था। यहां आरोपियों की एक युवक से कहासुनी हुई थी। इसी दौरान

आरोपियों ने दो लोगों को चाकू मार दिए थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या व हत्या के प्रयास मामले में शामिल आरोपी बस अड्डा आनंद विहार आने वाले है। सुचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अपना जाल बिछाया और आरोपियों के मौके पर आते ही दबोच लिया। बाद में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकु भी बरामद कर लिया।

फर्जी वेबसाइट बना २५ करोड़ का चूना लगाने वाले पांच दबोचे

१५ ह्यांग्र से न्यादा लोगों से की ठगी

रम ्रिन्द्र्ज 🕪 ्र दिल्ली

फर्जी ई-कॉमर्स साइटस के जरिए ठगी करने वाले एक गैंग का साइबर सेल ने पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पांच लोगों को अरेस्ट किया गया है। बीते तीन साल में यह गैंग 10 हजार से ज्यादा लोगों को करीब 25 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन आर्डर का पेयमेंट लेकर सामान की डिलीवरी नहीं करते थे। इनके नाम पश्चिम विहार निवासी विजय अरोडा (37), निलौठी एक्सटेंशन निवासी मनमीत सिंह (29), बिजवासन निवासी राजकुमार (30), रानी बाग निवासी प्रदीप कुमार और निलौठी एक्सटेंशन निवासी अवतार सिंह (32) हैं। साइबर क्राइम युनिट के डीसीपी अन्येष रॉय के अनुसार बडी संख्या में लोगों को ऑनलाइन ठगे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतकर्ताओं ने वेबसाइट बुक माईटैब से टेबलेट ऑर्डर किया था, जिसके बदले एडवांस पेयमेंट के तौर पर साढ़े तीन हजार से ज्यादा की रकम ली गई थी। बाद में किसी को सामान डिलीवर नहीं किया गया और ना ही रकम ही वापस हुई।

पुलिस ने वेबसाइट को जांच के दायरे में लिया। जांच में वेबसाइट के खिलाफ कई और शिकायतें सामने आई। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि इस वेबसाइट को ठगी के इरादें से ही तैयार किया गया था। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया। पुलिस ने पहले विजय अरोड़ा को पकड़ा। उसके ऑफिस से कुछ सामान भी बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने के बाद नहीं करते थे डिलीवरी

अन्य आरोपियों तक पहुंच गई। इनमें मुख्य आरोपी विजय है, जिसने मेरठ से होटल मैनेजमेंट में डिग्री ले रखी है। एचएम करने के बाद उसने लखनऊ में करीब 10 महीने पंच सितारा होटल में काम भी किया। इसके बाद उसने अपनी कंपनी खोल ली. जो कई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के लिए कोरियर के तौर पर काम करती थी। यहीं से उसके पास फर्जी शॉपिंग वेबसाइट बना लोगों को ठगने का आईडिया आया। उसने साठ से ज्यादा फर्जी वेबसाइट बनायी। जिनके जरिए इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे मोबाइल फोन, टेबलेट या कपडे जींस टीशर्ट आदि बेचने का ऑफर दिया जाता था। जो कोई भी इन वेबसाइट को देख जाल में फंसता वे पेयमेंट हासिल करने के बाद सामान ग्राहक तक नहीं पहुंचाते थे। आरोपियों में प्रदीप उर्फ साहिल ऑनलाइन कैंपेन मैनजर की भूमिका में था। वह अभी तक विजय के लिए करीब 30 वेबसाइट बना चुका था। प्रदीप को इस काम के बदले कमीशन मिलता था। मसलन, मोबाइल या टेबलेट खरीदने के बदले प्रति पीडित ढाई सौ रुपए तय थे। प्रदीप ने कर्नाटक से बीटेक किया है। उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान है। आरोपियों द्वारा तैयार की गई वेबसाइट में bookmytab, the ripped jeans, dailyposhak, naridukan, slimfitcollection, bookamobile

पुलिस ने अदालत में कहाः जमानत पर रिहा आरोपी द्वारा पत्नी की हत्या के मामले में तीन अधिकारी निलंबित **नर्इ दिल्ली।** दिल्ली पुलिस ने यहां एक अद्धालत को बताया कि अंतरिम जमानत

पर बाहर आए एक व्यक्ति के अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने आरोपी की पत्नी को सुरक्षा देने का आदेश दिया था लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने कथित रूप से उसकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के आयुक्त द्वारा सौंपी अनुपालन रिपोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधींश अनुज अग्रवाल को सूचित किया गया कि गोविंदपूर पुलिस थाने के एक इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और सहायक सब-इंस्पेक्टर को र्विलंबित कर दिया गया है। अदालत के 16 अगस्त को दिए आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्त ने रिपोर्ट में कहा कि इस अद्दालत के आदेश के अनुसार जांच की गयी और दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया तथा उनका डिस्ट्रिक्ट लाइन में तबादला किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों

बच्ची की हत्या का मामला : हाईकोर्ट ने दिल्ली पलिस से रिपोर्ट की तलब

नई दिल्ली। दिल्ली होईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में *नौ साल की दलित लड़की से कथित दुष्कर्म और* हत्या के मामले में मंगलवार को पुलिस को जांच पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया है कि इस मामले कीं जांच के लिए एसआईंटी गठित की गयी है। पीड़ित बच्ची के माता-पिता ने अंढालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति योगेश खन्न ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को आठ नवंबर से पहले जांच की स्थिति रिपोर्ट जमा करने को निर्देश दिया। मामले में अब आठ नवंबर को आगे सुनवाई होगी।

कुमार के खिलाफ गाजीपुर और न्य अशोक नगर थाने में मामला दर्ज

ईस्ट जिले के कोंडली से आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप किया गया है। गाजीपुर में एसआई अमित और न्यू अशोक नगर थाने में

फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य को लेकर

यातायात पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

फ्लाईओवर पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण यातायात

डाइवर्जन को लेकर मंगलवार को एक परामर्श जारी किया

्र और यात्रियों से वैकल्पिक रास्ते से जाने को कहा। परामर्श

विस्तारित जॉइंट पर चल रहा मरम्मत कार्य मंगलवार को

शुरू हुआ और अगले 20 दिन तक चलेगा। पुलिस ने कहा

े कि फ्लाईओवर के केवल आधे मार्ग पर यातायात चलेगा

और बाकी आधे मार्ग पर काम होगा। पलाईओवर के नीचे

सामान्य तौर पर यातायात चलेगा। परामर्श में कहा गया कि

मरम्मत कार्य के दौरान, यातायात प्रभावित होगा और रिंग

रोड के इस क्षेत्र में अधिक रहेगा। यात्रियों को वैकल्पिक

रास्ते से जाने की सलाह दी जाती है।

के अनुसार, पलाईओवर (धौला कुआं से एम्स तक) के

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रिंग रोड पर राजनगर

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन विधायक ने बिना पुलिस की अनुमति के तिरंगा यात्रा निकालकर डीडीएमए के नियमों का उल्लंघन किया था। इससे पहले विधायक के खिलाफ कल्याणपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक, 15 अगस्त वात्रा की अगुवाई कर रहे थे।

कुलदीप कुमार के खिलाफ दो और थानों में केस दर्ज

डीडीएमए के नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज हुई एफआईआर

के दिन विधायक कुलदीप कुमार और उनके समर्थकों ने तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में यात्रा निकाली थी। हेड कांस्टेबल कमार ने बताया कि 15 अगस्त को अपनी इयुटी पर तैनात थे। दल्लूपुरा के वरुण एंक्लेव के पास उन्होंने देखा कि कुलदीप कुमार कार में सवार होकर

intec Sapne Aapke, Bharosa Apno Ka CIN: L74899DL1994PLC057410

: 708, मंजूषा, 57 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली 110019 T-+91-11-46522200/300; F-+91-1146522333 Website: www.inteccapital.com

शेयरधारकों को सूचना

वीसी (वीडियो कांफ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजुअल साधनों) के माध्यम से आयोजित की जानी इंटेक कैपिटल लिमिटेड की सताईसवीं (27वीं) वार्षिक सामान्य बैठक के सम्बन्ध में सूचना

- एतद द्वारा सूचना दो जाती है कि सामान्य सरकुलर नं. 20/2020, 14/2020 और 17/2020 दिनंक 05 मई 2020, 08 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल 2020 क्रमशः के साथ पटिन कम्पनी मामलों का . मंत्रालय (एमसीए) सामान्य सरकुलर नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 के साथ पठित सेबी लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 और कम्पनी अधिनियम 2013 एक्ट, 2013'') और उनके तहत बनाए गए नियमों के सभी लागू योग्य प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 15 सितम्बर 2021 को दौषहर 12.00 बजे (आईएसटो) यीडियो कांफ्रीसेंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी और सेबी सरकुलर ने SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 के साथ पठित सेबी सरकुलर नं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 और अन्य लाग योग्य सरकुलर्स (सामुहिक रूप से "सम्बद्ध सरकुलरों" के रूप में संदर्भित), एजीएम बुलाने की सचना में विनिर्दिष्ट बिजनेस का सम्पादन करने के लिये किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक अनपस्थित के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दे चुके हैं। सदस्य वीसी / ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिये पात्र होंगे। वीसी . ओवीएएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन हैत गिना जाएगा।
- उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 27वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट उन शेवरश्वारकों को जिनके ई-मेल पुते कम्पनी / कम्पनी के रिज़स्ट्रार और शेवर ट्रांसफुर एजेंट / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं, भेजी जाएंगी। 27वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट पर www.inteccapital.com और स्टाक एक्सचेंजेज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट पर www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों को कोई भौतिक प्रतियां प्रेषित नहीं की

सदस्यों द्वारा ई-मेल पते का पंजीकरण डिमैटीरियलाइज्ड रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अपने ई-मेल पते, मोबाइल नम्बर अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरीज के पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से पंजीकत / अपडेट करवाना का आग्रह किया जाता है। भौतिक रूप से शेयरधारण करने वाले शेयरधाकों से, जिन्होंने अपने इं-मेल पते और मोबाइल नम्बर कम्पनी के पास पंजीकृत / अपडेट नहीं करवाएं हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एर्जेंट, बीटल फाइनैंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, 99, मदनगोर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062 ; टेलीफोन : 011-29961281 ; ई-मेल : beetalrta@gmail.com वेबसाइट beetalfinancial.com को प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है। सदस्यों द्वारा 27वीं एजीएम में भाग लेना और ई-वोटिंग से सम्बन्धित जानकारी :

शेयरधारकों को अपने वोट दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा देने और बैठक के दौरान 27वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट बिजनेस पर इलैक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने की सुविधा होंगो। बैठक के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग के माध्यम से डी-मैटीरियलाइज्ड रूप में, भौतिक रूप में और उन शेयरधारों हेतु जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाएं हैं, मत देने का तरीका 27वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध करवाया जाएगा।

इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के संचार / पूछताछ हमारे आस्टीए को इसके ई-मेल पते beetalrta@gmail.com पर भेजे जाए। उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ हेतु तथा सम्बन्धित परिपत्रों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

दिनांक : 17 अगस्त, 2021

स्थान : नई दिल्ली

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते इंटेक कैपिटल लिमिटेड संजीव गोयल प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00028702

स्थान : गरुग्राम

चन्द्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड V CIN: L51909DL1984PLC019441

आदि शामिल हैं।

CIN: L51909DL1984PLC019441 पंजी. कार्यालय : 14, रानी झांसी रोड, नई हिस्सी-110055 कॉर्पोरेट कार्यालय : 522, 5वां तल, डीएलएफ गैलीरिया कार्शियल कॉम्पलेक्स, डीएलएफ सिटी, फेज-IV, गुरुग्राम, हरियाणा-122009 Email : info@cpil.com, cs@cpil.com, Website : www.cpil.com

सार्वजनिक सूचना - ३६वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 तथा परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 के अनुसरण में)

आपको यह सुचित किया जाता है कि विश्व में कोविड-19 महामारी फैलने के मद्देनजर कम्पर्न लों का मंत्रालय में सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 [परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक अप्रति पा प्रवाणि में सामान्य भारत्य स. 20/2/20 (दनाक 05 मह 2020 [पारपत्र स. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 तथा 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 के साथ पिता] ("एमसीए परिपत्र") तथा भारतीय प्रतिभृतियों एवं विगिनय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") तथा जारी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी 2021, कम्पनियों को वार्षिक सामान्य बैठकों को वीडियों कांफ्रैसिंग ("बीसी") सुविधा / अन्य ऑडियों विजुअल साधनों ("ओएबीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दे दी हैं।

वर्तमान परिदृश्य में तथा कम्पनी अधिनियम 2013 (''दि एक्ट'') उपरोक्त एमसीए परिपत्रीं तथ सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालना के अधीन में, चन्द्र प्रमु इंटरनेशनल लिमिटेड (''दि कम्पनी' की आगामी 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') वीडियों कॉफ्रीसेंग (''वीसो'') सुविधा / अ ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएबीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

व्या प्रश्नुक्तल सावना (- आर्वाएम) या माळवन स आयागत या आएगा। कम्पनी के सदस्यों को 36वीं एजीएम **मंगलवार** 21 **सितम्बर** 2021 को दोपहर 12:00 बजे (आर्डएसटी) नेशनल सिक्वीरिटोज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ("पनएसडीएल") द्वारा एजीएम की सुचना में निर्धारित बिजर्नर के निम्पादन के लिये उपलब्ध करवाई गई, चौडियो कांफ्रेरियंगू ("चौसी") सुविधा / धन्य ऑडियो विजुडार साधनों (''ओएबीएम'') के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

तम (आरबार्स) के मार्थ्यम से आसागत को गत हो। इसके आतिवेल, कम्पनी की बितांच वर्ष 2020–21 हेतु समेकित वार्षिक रियोर्ट सहित एजीएम की ाना कम्पनी को मुंबसाइट <u>www.cpil.com</u> तथा बॉम्ब स्टाफ एक्सचेंन की बेक्साइट जहां पर कम्पनी के शेवर सूचीबद्ध हैं अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। कम्पनी ने, सदस्यों को एजीएम में प्रस्तावित प्रस्तावों पर इतैक्ट्रोनिक साधनों (''दूरस्थ ई-वोटिंग'') मत के अधिकार का उपयोग करने के साथ-साथ एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को एजीएम के दौरान

अपने मत ई-बोटिंग प्रणाली (''ई-बोटिंग'') के माध्यम से वीसी सुविधा / ओवीएम के माध्यम से अपने जिपन मत्त हु-बाहिन जुणाला है न्याहिन के सांब्यम से वास्ता सुवाया ने जाएंस के सियं, नेशानल सिक्योरिटीज मत अधिकार का उपयोग करने योग्य बनाने की सुविधा प्रदान करने के लियं, नेशानल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरोज लिमिटेड ("एनएसडोएल") से समझौता किया है। उन खदर्यों के लियं जो भौतिक, डिप्रैटीरियलाइजेशन रूप से शैयर धारण करते हैं तथा वे सदस्य जिन्होंने अपने इं मेल पते पंजीकृत नहीं करवाएं हैं ''दूरस्थ ई-बोटिंग्'' तथा ''ई-बोटिंग'' का तरीका एजीएम् की सूचना में बिस्तृत रूप से उपलब्ध करवाया गया है। यदि दूरस्थ ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के मामले में आपके पास कोई पूछताछ य मामला है तो आप <u>e-voting@nsdl.co.in</u> पर सम्पर्क अथवा 1800-1020-990 पर कॉल क

सदस्य केवल वीसी सविधा/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग त सकते हैं, जिसका विवरण कम्मनी द्वारा बैठक की सूचना में उपलब्ध करवाया जाएगा। तदानुसार कृपय नोट करें कि कम्पनी की 36वीं एजीएप में कोविड -19 के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों हार जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का प्रावधान नहीं किया गया है। बासी सुविधा / ओएबोएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना करने के प्रयोजन हेतु गिना जाएंगा

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सहित एजीएम की सूचना इलैक्ट्रोनिकली केवल उँन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पत्ते कम्पनी / रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आस्टीए)/ डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। एमसीए सरकुलर और सेबी सरकुलर के अनुरूप, एकोकृत वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना की पौतिक प्रतियां किसी सदस्य की नहीं भेजी जाएगी। जो सदस्य अपने ई-मेल पर अभी तक पंजीवृत नहीं करवा चुके हैं, से एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट इलैक्ट्रोनिकल प्राप्त करने के लिये और लॉगइन प्रत्यायकों को प्राप्त करने के लिये उनके ई-मेल पतीं का पंजीकरण करवाने के लिये नीचे वर्णित प्रक्रिया को अपनाने का आग्रह किया जाता है उन सदस्यों के लिये जो इलैक्टोनिक रूप में शेयरधारण करते हैं और ई-मेल पता पंजीकत नहीं है :

जो सदस्य इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयरधारण करते हैं और अपना ई-मेल पता अद्यतन नहीं करवा चुं हैं, से कम्पनी के आरटीए अर्थात मैं. अलॉकित असाइनमेंट्स लिमिटेडू को <u>rta@alankit.com</u> : लिखकर इं-मेल पता अद्यतन करवाने का आग्रह किया जाता है। सदस्यों से हि विवरण (सीडीएलसएल-16 अंक लाभप्राप्तकर्ता आईडी अथवा एनएसडीएल-16 अंक डीपीआईड - सोएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित अकाउंट विवरण की प्रति, पैन (पैन का को स्व-सत्यापित रकैन्ड प्रति) आधार (आधार कोई की रव-सत्यापित स्कैन्ड प्रति) प्रदान करने को स्व-सत्यापित रकैन्ड प्रति) आधार (आधार कोई की रव-सत्यापित स्कैन्ड प्रति) प्रदान करने का आग्रह किया जाता है / उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (एस) से सम्पर्क भी कर सकते हैं। उन सदस्यों के लिये जो भौतिक रूप में शेयस्थारण करते हैं: - जो सदस्य भौतिक रूप मे शेयस्थारण करते हैं और अपना ई-मेल पता अद्यतन नहीं करवा चुके हैं, से कप्पनी के आरटीए

अर्थात मै. अलेकित असाइनमेंद्स लिमिटेड को **rta@alankit.com** पर लिखकर ई-मेल पता अद्यतन करवाने का आग्रह किया जाता है। सदस्यों से आदाश्यक विवरण यथा फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट को स्केंड प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन्ड प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन्ड प्रति) प्रदान करने का आग्रः

उनके ई-मेल पते के रूथाई पंजीकरण के लिये. डिमैट फॉर्म में शेयरधारण करने वाले सदस्यों से उनके डिपॉजिटरो पार्टिसिपेंट्स (''डीपीएस'') के पास और भौतिक रूप में <mark>शे</mark>यरधारण करने वाले सदस्य के मामले में रजिस्टार के पास इसे अद्यंतन करवाने का आग्रह किया जाता है।

सुदस्य ध्यान दें कि 25 जून 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल रु. 1.00 प्रति सदस्य भ्यान द ।क 25 जून 2021 का आयाजत उनका अवक म ानकाल नहस्त ए. 1000 मार इकिटरी शेयर के एक अन्तिम लाभांश की अनुशंसा कर चुका है। अन्तिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों, जो अपने बैंक अकाउंट विवरण अपडेट करवा चुके हैं, को इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर मोइस के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के अधीन किया जाएगा। जो शेयरधारक अपने बैंक अकाउंट विवरण अपडेट नहीं करवा चुके हैं, हेतु लाभांश वारंट्स / डिमांड ड्राफ्ट्स / चैक्स डाक सेवाओं की उपलब्धता पर निर्मर करते हुये पंजीकृत पत पर भेजे जाएंगे।

इलैक्ट्रोनिकली लाभांश प्राप्त करने के पंजीकरण का तरीका : सदस्यों को लाभांश प्राप्त करने में बलाव्य से बचने के लिये इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफ्त के माध्यम से लाभांश की प्राप्ति हेतु विकल्प देने का परामशं दिया जाता है। तदनुसार, शेयरधारकों से नाग, फोलियो नं, बैंक विवरण, पैन की स्व-सत्यापित प्रति, कोई पता प्रमाण और कैंसल्ड चैंक लीफ वर्णित करते हुये आग्रह पत्र की प्रति सहित ra@alankit.com पर आरटीए (जहां फिजिकल मोड में शेयरधारण किये हैं) सहित और उनके टिपाजिटरीज के पास (जहां डिमेटीरियलाज्ड रूप में शेयरधारण किये हैं) अपना पूर्ण बैंक विवरण अपटेट

करवाना का आग्रह किया जाता है। यह सुचना एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कम्पनों के सभी शेयरधारकों को जानकारी और लाभ हेतू जारी की जा रही है। यदि किसी सदस्य के पास वार्षिक सामान्य बैठक में भागीदारी अथवा लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध

में कोई ग्रश्न है तो <u>cs@cpil.com</u> पर कम्पनी को लिख सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार चन्द्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड हस्ता (गजराज जैन) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डीआईएन-00049199

क्सानों और जन संगठनों को भागीदारी का आह्वान

संयुक्त किसान मोर्चा २६-२७ को करेगा अखिल भारतीय सम्मेलन

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के नौ महीनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 26-27 अगस्त के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन की तैयारी शुरू दी है। एसकेएम पदाधिकारियों ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि 26-27 अगस्त 2021 को दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसके लिए किसानों और जन संगठनों को भागीदारी का आह्वान किया गया है। इस पर पूरे भारत से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति देखी



जाएगी। एसकेएम ने बताया कि किसानों और उनकी मांगों के प्रति सरकार के अहंकारी. असंवेदनशील और अलोकतांत्रिक रवैये के प्रति किसान आंदोलनों की प्रतिक्रिया पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा और आंदोलन

की आगे की दिशा और निर्देश संयुक्त रूप से तय की जाएगी और फिर लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने हमेशा यह दिखाने की कोशिश की है कि यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन कुछ राज्यों तक सीमित है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि एसकेएम नेताओं का कहना है कि जहां भी भाजपा अपने कॉर्पोरेट-हितैषी किसान-विरोधी कानूनों और जहां भी जाएंगे उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा में जाती रही है कि भाजपा अपने

जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन

जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा है। देश भर के किसान जीवित रहने के

नीतियों से किसानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, उसके नेता किसानों द्वारा लगातार यह मांग की किसान विरोधी रवैये को छोड़ दे, और उनके नेताओं को अपनी नीतियों और राजनीति की सार्वजनिक अस्वीकृति के कारण

लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह सम्मेलन केंद्र सरकार के झूठ के कफन में एक और कील साबित होगा।